# **SURAJ INDUSTRIES LTD**

**Registered Office** -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 **CIN:** L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org Telephone No: 01970-256414

August 31,2023

To, The Executive Director BSE Limited Floor 25, P J Towers Dalal Street, Mumbai-400001

**Scrip Code: 526211** 

Subject: Newspaper Publication for Updation of Email Id and Contact Details.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copies of Newspaper Advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) Chandigarh Edition, intimating that 31st Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), the availability of the Notice on the Company's and Stock Exchange's website, details of e-voting and instructions for registering shareholder's email address.

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You, Yours Truly, Suraj Industries Ltd

Snehlata Sharma
Company Secretary & Compliance officer

Encl: As Above

**FINANCIAL EXPRESS** 

SERVICES LTD., has decided to conduct Auction of Gold ornaments belonging to accounts (mentioned below) which have become overdue or which have defaults or margin breach customers. The Auction would be held at respective Branches specified below on Monday 11-09-2023 between 10.00 a.m. to 12.00 p.m. This

Ludhiana Baba Than Singh 0161-46503664 FEDGL03810002307 0002050, 0002292, 0001995, 0002232, 0002411, 0002272, 0001932, 0002269, 0001652, 0001918, 0002343 Ludhiana Dugri 1615049247 FEDGL04460001044, 0000943, 0001043 0000754, 0001025, 0000798, 0000851, 0001070, 0000796 0001107, 0000795, 0001000, 0000444 Ludhiana Haibowal 0161 - 5090206 FEDGL03850002386, 0002021, 0002070, 0002375, 0002199, 0002325 Patiala - Leela Bhawan 0175-5188001 FEDGL03620003286 Patran 9988306001 FEDGL05090000275, 0000258, 0000255, 0000598 Rajpura 01762-520885 **FEDGL0356**0004037, 0003780 0003115, 0003084, 0002734, 0002729, 0002719, 0002684 1764505445/7837426334 **FEDGL0419**0002359, 0001599 , 0002358, 0001946, 0001984, 0001938, 0001549, 0001168, 0001156, 0001133, 0001125 Zirakpur 01762511883 FEDGL03820002654, 0001896, 0002323, 0002653, 0002312, 0002650, 0002509, 0002584, 0002619, 0002058, 0002601, 0002490, 0002548, 0002295, 0002265, 0002263, 0001726

Change in Venue or Date, if any will be displayed on our Website www.fedfina.com. All bidders participating will be intimated subsequently with respect to acceptance or rejection of bids submitted by them. Customer who want to release their ornaments shall visit at the base branch wherein the ornaments were pledged by the customer or contact at the number mentioned above on/or before

Auction will be conducted at respective branches, in case the auction does not get completed on the given date due to any reasons, the auction in respect thereto shall be conducted on subsequent working days at district level branch after displaying the details on our Website. No further communication shall be

Place: Punjab

pnb

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED CIN: L51100UP1990PLC012089 R/O: 7/125 (C-2), IInd Floor, Swaroop Nagar, Kanpur - 208002 E-Mail: rcfsl@rediffmail.com

Tel no. 0512-2540293 WEB: www.richuninet.com NOTICE

NOTICE is hereby given that the Thirty Third Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 26th September, 2023 at 04:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 7/125 (C-2), IInd Floor, Swaroop Nagar, Kanpur - 208002. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements (Standalone for the financial year 2022-2023, along with the Board's Report, Auditor's Report and othe documents required to be attached thereto, have been sent to all the members of the Compan whose email address are registeredwith the Company/Depository Participant(s). The aforesai documents are also available on the Company's website and on the website of the Stoc Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Th

Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEB (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 19th September, 2023 to 26th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing

Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through National Services Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:-

(a) The cut off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting of voting at the AGM is 19th September, 2023.

(b) The remote E-voting shall commence on September 23, 2023at 09:00 a.m. ISTand end of September 25, 2023 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyon

(c) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the ema sending date i.e. 30th August, 2023 and holding shares on cut off date i.e. 19th Septembe 2023, may obtain the procedure to login by sending request at www.evoting.nsdl.com However, if the person is already registered with NSDL for evoting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.

(d) Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their ema addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registra at www.skylinerta.com click on email registration and upload required documents therein (e) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository

participants with whom they maintain their demat accounts. (f) The Notice of AGM is available on the Company's website www.richuninet.comand on NSDL website www.evoting.nsdl.com

(g) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 33rd Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on NSDL website www.evoting.nsdl.com. In case of any queries pertaining to e-voting, member car e-mail to evoting@nsdl.co.inand/or www.richuninet.com; (h) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and

in particular, manner of casting vote through remote e-voting or through ballot paper during

Amount

Outstanding

Authorized Officer

PUNJAB & SIND BANK

**FARIDKOT ZONE** 

CORRIGENDUM

Trading Co., Branch Office Nihal

Singh Wala, Mentioned at Sr. No.

10. Now Please read the

Outstanding Amount Rs.

26,80,174/- interest w.e.f 01-07

2023 and other bank charges and

expense in CC Limit account and

Rs. 2,35,717.03 + interest w.e.f 01

07-2023 Instead of Rs

13,74,772.07 + interest up to

Authorised Officer

indianexpress.com

I look at every side before taking a side.

Inform your opinion with insightful perspectives.

The Indian EXPRESS

30.12.2022.

er to our E-auction Sale Notice

shed on Dated 29.09.2023 for

count of M/S Takhtupura

By the order of the Board

**Astha Chaturvedi** 

Company Secretary

For: RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED

Date: 30th August, 2023 Place: Kanpur

vynilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

'IMPORTANT''

and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. Name of the Description of secured Total Outstanding Date of Date of asset (immovable property) Dues (Rs.) Demand Borrowerls Possessio Lucknow BRANCH Notice All that piece and parcel of: Plot over Khasra No. 567 Rs. 9.60.346.00/-Mr. Lucky Saini, & min Land area Ad. Measuring: 700 Sq.ft , Carpet area | (Rupees Nine Lakh 19-Jun-Mrs. Rani Saini Ad. Measuring: 535 Sq.ft, situated at Gram-Jarahara Sixty Thousand 2023 Prospect No. Ward, Indira Privadarshani, Tehsil and District Three Hundred

28-Aug-23 Forty Six Only) Lucknow, Uttar Pradesh, India, 226900 For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: 1017, Tenth Floor, Cyber Heights, TC 2/2 and TC 5/5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010 for Corporate Office:Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar

PRITIKA ENGINEERING COMPONENTS LIMITED

Read, Office:Plot No. C-94, Phase-VII Industrial Focal Point, S.A.S., Nagar, Mohali, Punjab - 160055

CIN: L28999PB2018PLC047462, Phone No. 0172-5008900

Email Id: compliance.pecl@pritikagroup.com website: www.pritikaengineering.com

NOTICE OF 6TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting (AGM') of

the Company will be held on Thursday, 28th September, 2023 at its

Registered Office situated at Plot No. C-94, Phase-VII, Industrial Focal

Point, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab - 160055 at 11.30 a.m., to transact the

Notice of the AGM and the Annual Report for 2022-23 has been sent in

electronic mode to the members whose email IDs are registered with the

Company/Depository Participants. The same is also available on the

Company's website https://www.pritikaengineering.com/annual-

reports.html and on website of NSE www.nseindia.com and on NSDL at

www.evoting.nsdl.com. The electronic dispatch of Annual Report has

been completed on 29th August, 2023. The requirement of sending

physical copy of Notice and Annual Report to the members has been

Notice is also given that the Register of Members and the Share Transfer

books of the Company will remain closed from Tuesday, 26th September,

2023 to Thursday, 28th September, 2023 (both days inclusive) for the

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form,

as on the cut-off date, may cast their vote electronically on all resolutions

as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of

National Securities Depository Ltd. (NSDL) from a place other than the

venue of AGM ("remote e-voting") or by voting at the AGM through ballot

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means

or at the AGM is 21st September, 2023. Any person, who acquires shares

of the Company and become member of the Company after dispatch of

the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, may

obtain the user ID and password by sending a request to NSDL at

evoting@nsdl.co.in OR to Company's Registrar M/s Link Intime India

A person already registered with NSDL for remote e-voting can use

ii) The remote e-voting shall commence on 25th September, 2023 at 9:00

a.m. & end on 27th September, 2023 at 5:00 p.m. The remote e-voting

module shall be disabled by NSDL thereafter and once the vote on a

resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be

made available at the AGM. The members who have cast their vote by

remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be

iii) In case of any query/grievances members are requested to email

company's Registrar at evoting@linkintime.co.in or contact Mrs. Pallavi

Mhatre, Manager, NSDL, at 022-2499 4545 or pallavid@nsdl.co.in or

write to NSDL at NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lowel Parel, Mumbai - 400013. This

D.K. ENTERPRISES GLOBAL LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS D.K. ENTERPRISES GLOBAL HUB LIMITED)

REGISTERED OFFICE: - PLOT NO-235 INDUSTRIAL AREA

PHASE-2 PANCHKULA, HARYANA-134109

**NOTICE OF 05TH ANNUAL GENERAL MEETING** 

AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 05th Annual General Meeting (AGM") of

the Members of D.K. ENTERPRISES GLOBAL LIMITED will be held on

Monday, 25th September, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video

Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means (OAVM") to transact the

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act,

2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange

Board of India ("SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General

Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020

dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020,

General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General

Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other applicable

circulars issued by the MCA and SEBI Circular dated May 12, 2020

Circular dated January 15, 2021, Circular dated May 13, 2022 and

Circular dated January 05, 2023 (collectively referred to as "relevant

circulars"), the Notice of the AGM and Annual Report including the

Audited Financial Statements for the financial year 2022-23 have been

sent in electronic mode to Members whose email IDs registered with the

The copy of the Annual Report and AGM notice is also available on the

Company's Website at www.dkenterprises.co.in/annual-report.html,

websites of the stock exchange i.e. National Stock Exchange of India

The dispatch of Notice of the AGM through e-mails has been completed

E-VOTING

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic

platform provided by NSDL. Members are requested to visit

www.evoting.nsdl.com and access the shareholders'/members' login by

using the remote e voting credentials provided to them. The documents

pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be

1. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20

business as set out in the Notice of AGM.

Company or the Depository Participants.

on 30<sup>th</sup> August, 2023

Limited-Emerge Platform at www.nseindia.com

available for inspection at www.evoting.nsdl.com.

Instructions for Remote e-Voting and e-voting:

For Pritika Engineering Components Ltd

Managing Director(DIN:00239042)

CIN: - L36999HR2019PLC07880

Harpreet Singh Nibber,

notice is also available on the website of the company and NSE.

dispensed with vide MCA/SEBI circulars.

paper. All the members are informed that:

Private Limited at evoting@linkintime.co.in

entitled to cast their vote again;

Place: Mohali

Date: 29.08.2023

existing user ID and password for casting vote;

purpose of AGM.

Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower

and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise

of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular

Gurgaon, Harvana Place: Lucknow Date: 31/08/2023

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

## **Superhouse Limited** (A Government of India recognized Export Trading House)

Registered Office: 150 Feet Road, Jaimau, Kanpur | CIN: L24231UP1980PLC004910 Website: www.superhouse.in Email: share@superhouse.in

Notice of the 43rd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of Members of the company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 10.00 A.M. at the Office of the Company at 219/3 & 4 'L' Block. Naveen Nagar, Kakadeo, Kanpur-208025, Uttar Pradesh. The Notice of convening the Annual General Meeting and Annual Report 2022-23 has been sent to the members whose email addresses are registered with the company/depository participant (s). The notice alongwith the Annual Report for the Financial Year 2022-23 is also available on the company's website at <a href="http://www.superhouse.in">http://www.superhouse.in</a>.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the register of members and share transfer books of the company will remain closed from Saturday, 16th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend and Annual General Meeting for the Financial Year that ended on 31st March, 2023. As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 and Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business said forth in the Notice, through electronic Voting ("Remote e-Voting") facility extended by National Securities Depository Limited (NSDL). The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are

The members may cast their votes using an electronic voting system to vote on resolutions proposed to be passed in the meeting by electronic means.

 Date and time of commencement of remote e-Voting: Tuesday, 26th September, 2023 at 9.00 A.M. iii. Date and time of end of remote e-Voting: Friday, 29th September, 2023 at 5.00 P.M. iv. The cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes at the AGM is Saturday,

23rd September, 2023. Any person, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 23rd September, 2023 may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or

share@superhouse in. However, if such person is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting his/her vote Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Friday, 29th September, 2023. The facility for voting ballot/polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by means of remote e-Voting shall be able to cast their

vote at the AGM through ballot/polling paper. viii. A member may participate in the annual general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

ix. A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off-date i.e. Saturday, 23rd September, 2023 only shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the annual general meeting. X. The notice of AGM is available on the website of the company at <a href="http://www.superhouse.in">http://www.superhouse.in</a> and that or

agency at https://www.evoting.nsdl.com. For any gueries/ grievances connected with facility for voting by electronic means, the members may

contact Ms. Minaxi, M/s Skyline Financial Services (P) Limited, D-153/A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 email ID: contact@skylinerta.com Telephone No. 011-26812682,26812683,40450193-197. xii. For electronic voting instructions, members may go through the information and instructions relating to

E-voting sent along with Notice of the AGM and in case of any queries/ grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-Voting User Manual for Members available at the downloads sections of www.evoting.nsdi.com or call on toll

For Superhouse Limited (R.K Agrawal)

Date: 30" August, 2023 Place: Kanpur

Allen Cooper

**Branch Office:** 65 Jhoke Road,

Company Secretary

# **PUNJAB & SIND BANK**

## (A Govt. of India Undertaking) Ferozepur Cantt.

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002.

A notice is hereby given that the following borrower has defaulted in the repayment of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned NPA. The notice under section 13(2) of the Securitisation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 were issued to the borrower/guarantors on their last known address by the registered post . However the notices have been returned unserved & the authorised officer has reasons to believe that the borrower /guarantors are avoiding the service of notice as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Name of Borrower(s)/

Date of Date of Description of the Amount Demand Outstanding Immovable Property /Guarantor(s) Borrower: 1. Smt. Neena Land measuring 6.56 marla i.e. | 29.07.2023 | 25.08.2023 | Rs. 14,95,708.74 Tondon W/o Sh. Desh 35'x51' out of Rect No. 144 Killa No. 8/1(8- (Rs. Fourteen Lacs Ninety Five Deepak Tondon, #102, 7), 14/2(7-9) bounded as under: East by: Thousand Seven Hundred Eigh

Tondon S/o Desh Deepak Wasika No. 6351 dated 09.02.2010 and further interest and other Tondon, #102, Preet Nagar, 2400 dated 24.06.2010 in the name of charges thereon. Phase-2, Ward No. 9, Neena Tondon, addressee No. 1, Situated in the area of Kunan Nagar Ferozepur City-152002. Ferozepur City, Tehsil & District Ferozepur.

Preet Nagar, Phase-2, House of Sukhdev Singh, West by : House & Paisa Seventy Four Only) in

Ward No. 9, Ferozepur City-of Sukhdev Singh, North by : Wide Street, Iterm Ioan (LAP) inclusive o

152002. 2. Sh. Sandeep South by : House No. 1 & 2 of Preet Nagar, interest upto 31.07.2023 plus

Guarantor: Sh. Ajay Kumar S/o Sh. Vijay Kumar, House No. 21, Deshmesh Nagar, Gali No. 1

Ferozepur Road, Zira-142047.

The above borrower /guarantors are advised to pay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days as per

provisions of the Securitisation of financial Assets and enforcement of security interest Act, 2002. Moreover the borrower/ guarantors are hereby restrained from dealing with any of the above secured assets mentioned above n any manner whatsoever without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject act and/or any other law in force. **Authorized Officer** 

Dated: 30.05.2023

Place: Ferozepur Cantt

**POSSESSION** NOTICE

Punjab & Sind Bank A Govt. of India Undertaking पंजाब एण्ड सिंध बैंक ZONAL OFFICE: First Floor, Satguru Tower, CP47A, Sector-E, Jankipuram, Lucknow

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with the Rule 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued Demand Notice calling upon the borrowers detailed below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date as The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the mentioned properties and any dealings with the mentioned properties will be

subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for the amount/liability and interest thereon due from the borrowers as mentioned below. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the act in respect of time available to redeem the secured asset.

Date of Demand Notice Name of Borrowers Description of the

No	& Guarantors	Notice	Immovable Property	Date of Symbolic Possession
	BRANCH:	Bharua Sumerpur,	Hamirpur	
1	Borrower: M/s Ram Ji Traders, Prop. Mr. Deepak Vishwakarma S/o Sh. Ram Kishor, R/o Village Thok Gurguj Baruwa Sumerpur, Tehsil Hamirpur, Distt-Hamirpur. Guarantor: 1. Mrs. Parvesh Kumari W/o Sh. Deepak Vishwakarma, R/o Village Bharuwa Sumerpur Near Old State Bank Sumerpur Tehsil Hamirpur District Hamirpur.  2. Mr. Gopal Krishna S/o Sh. Bansh Gopal, R/o Village Bharuwa Sumerpur Tehsil Hamirpur District Hamirpur.	01.05.2023	Property i.e. Open Plot Serial No. 935, Bahi No. 1, Zild No. 3580 registered on 31.03.2017 on page No. 281-312 at sub registrar Hamirpur property situated at Sumerpur Distt. Hamirpur, Measuring Area: 161.71 Sq. Mtr., Owner: Mr. Deepak Vishwakarma S/o Sh. Ram Kishor, Boundaries (as pe valuation dt. 12.10.2020 by M/s Bharat & Associates): East: Shyam Lal West: Binda Sahu North: Bilkis South: Rasta.	25.08.2023
2	Borrower: Mr. Sanjay Yadav S/o Surjan Yadav, R/o Village H. No. 81, Gurguj Sumerpur, Tehsil Hamirpur, Distt-Hamirpur. Guarantor: Mr. Uday Yadav S/o Surjan Yadav, R/o Village H. No. 81, Gurguj Sumerpur, Tehsil Hamirpur, Distt-Hamirpur.	₹ 4,81,800.83 as on 31.08.2022 + Interest & other expenses w.e.f. 01.09.2022	Property i.e. Residential House Serial No. 2141, Bahi No. 1, Zild No. 3363 registered on 19.05.2016 on Page No. 347-378 at Sub Registrar Hamirpur property situated at ward No. 13 H. No. 175/1, Lajpat Nagar town Bharuwa Sumerpur Distt. Hamirpur, Measuring Area: 141.87 Sq. Mtr., Owner: Mr. Sanjay Yadav S/o Surjan Yadav, Boundaries (As per valuation dt. 06.07.2016 by M/s Nirman Consultancts): East: Uttam Patel and Kamla West: Sanjay Yadav and Anil Sahu North: Raju and Surjan Lal South: Rasta.	
		CH: Lahurabir, Va		
3	Borrower: M/s Aishwaryada Pharmaceutical, Add. S 25/51 A-M, Sarsauli Gautam Vibar Colony, Bholubear Varanasi Ultar Pradesh 221002	The state of the state of the	All part and parcel of the property consisting of House No. \$ 25/51 A.M. situated at Arazi No. 23 Min. Mohalla Sarsauli.	26.04.2023

expenses w.e.f.

01.04.2023

Sarsauli, Gautam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi, Uttar Pradesh-221002. as on 31.03.2023 S 25/51 A-M, situated at Arazi No. 23 Min., Mohalla Sarsauli, 25.08.2023 Proprietor: Sh. Saurabh Kumar S/o Sh. Amod Kumar Srivastav, R/o S + Interest & other | Ward Sikrauli, Pargana Shivpur, Tehsil & District Varanasi. 25/51 A-M, Sarsauli, Gautam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi, Uttar Pradesh-221002.

Late Amod Kumar Srivastava S/o Sh. Shitala Prasad through his legal heirs Mrs. Asha Srivastava W/o Late Amod Kumar Srivastava. R/o S 25/51 A-M, Sarsauli, Gautam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi, Uttar Pradesh 221002.

Borrower: M/s Akshayaguna Services, Prop. Late Amod Kumar astav (through His Legal Heirs), situated at Add. S 25/51 A-M, Sarsauli utam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi, Uttar Pradesh-221002. roprietor: Late Sh. Amod Kumar Srivastay, (through his legal heirs) R/o S 25/51 A-M, Sarsauli, Gautam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi

Uttar Pradesh-221002. Sh. Saurabh Kumar S/o Amod Kumar Srivastav, (through his legal heirs) R/o S 25/51 A-M, Sarsauli, Gautam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi. Mrs. Asha Srivastava W/o Late Amod Kumar Srivasvata, (through his

legal heirs) R/o S 25/51 A-M, Sarsauli, Gautam Vihar Colony, Bhojubeer, Varanasi, Uttar Pradesh-221002. Date: 31.08.2023, Place: Lucknow

All part and parcel of the property consisting of House No. ₹ 29,68,839.39 as on 31.03.2023 S 25/51 A-M, situated at Arazi No. 23 Min., Mohalla Sarsauli. expenses w.e.f. 01.04.2023

 + Interest & other | Ward Sikrauli, Pargana Shivpur, Tehsil & District Varanasi Measuring Area: 1407 Sq. Ft., with all constructions, fittings & Fixtures registered Owner: Late Amod Kumar Srivastav S/o Shitala Prasad, Property registered at SRO 3 (Sub-Registrar-3) Varanasi, Boundaries: East: Land Manoj Patel West: Kachha Rasta 14 Ft. North: Land Dhirja Devi South: Land Sunil Kumar Srivastava & Asha Singh.

Measuring Area: 1407 Sq. Ft., with all constructions, fittings

& Fixtures registered Owner: Late Amod Kumar Srivastav

S/o Shitala Prasad, Property registered at SRO 3 (Sub

Registrar-3) Varanasi, Boundaries: East: Land Manoj Patel

West: Kachha Rasta 14 Ft. North: Land Dhirja Devi South:

Land Sunil Kumar Srivastava & Asha Singh.

this regard. 26.04.2023 25.08.2023

the Companies Act 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 18th September, 2023 to Monday, 25th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

(Managing Director)

financialem epam.in

free no. 1800 22 55 33.

Place: Delhi

Date: 30.08.2023

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD. AUCTION NOTICE would continue till the auction process is over.

09-09-2023 subject to the terms and condition applicable.

issued in this regard

For, sdl- Authorised Signatory Dated: 31-08-2023 Fedbank Financial Services Ltd.

punjab national bank

CIRCLE SASTRA ......Together for the better MOGA

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. and in Exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice under Section 13(2) of SARFAESI Act 2002 calling upon the following borrower(s)/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in notice within 60 days of the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described here below in Exercise of the power conferred on him under section 13(4) of said ACT read with rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002.

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and dealing with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank, for an amount details mentioned herein below.

The Borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s). Name of the Branch Date of Date of Description of the Borrower(s)/Guaranator(s)/ Property Mortgaged Demand Notice | Possession

Mortgage of Two Shops and Vacant 16.03.2023 29.08.2023 Rs. 59.40.958.14 B/O: BTW Ferozepur Borrower: M/s space measuring 6 marla 1 sarsai. (Rupees Fifty Nine Lacs Forty Thousand Nine Lakshmi Rice Mill Bounded by: East: Satish Kumar Hundred Fifty Eight & Paisa Fourteen Only Bahi, West: Road Bahi, North: Sohan plus further interest w.e.f. 01.03.2023 and (Firm), Makhu Road Lal 25'6", South: Chand Dhawan and other charges thereon. Mallawala Khas

Jatinder Dhawan Bahi 25' 6', Situated at Kamal Wala Road, Opposite Chandan Ferozepur-152002. Pesticides, Mallawala Khas, Tehsil - Zira, Distt. Ferozepur. Date: 30.08.2023 Place: Moga

SURAJ INDUSTRIES LTD Registered Office: Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kanora, H.P.-173212

Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org Notice (For the attention of Equity Shareholders of Suraj Industries Ltd.)

Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Okhia Industrial Area, Phase-2, New Delhi-110020

CIN: L26943HP1992PLC016791 Telephone No: 01970-256414

tice is hereby given that the Thirty First (31st) Annual General Meeting (AGM) of the embers of Suraj Industries Ltd. will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 03:30 P.M. hrough Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the AGM Notice dated August 28, 2023 without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Act, 2013 and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with Circular No. 10/2022 dated December 28/2022 read together with 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02 2021, 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021 May 05 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read together with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ("SEBI Circulars") issued by the Securities and

Exchange Board of India ("SEBI Circular") ursuant to above mentioned MCA & SEBI Circular(s), Notice of 31st AGM, inter-alia, explaining he procedure and instructions for participating into the AGM through VC/OAVM and also the rocedure and instructions for electronic voting (e-voting) containing the Business Items to be ransacted and explanatory statement along with the Annual Report 2022-23 will be sent inly through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with he Company/Depositories. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circular(s) for the year 2023. The electronic mailing of the aforesaid documents is

expected to be completed on or before September 04, 2023. ursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations). he Company is pleased to provide remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM by CDSL to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions

as set out in the Notice of AGM. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares ield, with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and selfattested scanned copy of any one of the following documents viz.. Aadhar Card, Driving icence, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company, for receiving the Annual Report 2023 along with AGM Notice by email, to secretarial@surajindustries.org or

beetalrta@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants Please note that the updation/registration of email addresses on the basis of the above scanned documents will be only for the purpose of sending the notice of 31st AGM and Annual Report for 2022-23 and thereafter shall be disabled from the records of the RTA mmediately after the 31st AGM. You will therefore be required to send the Email ID updation request along with hard copies of the aforesaid documents to RTA for actual registration in he records to receive all the future communications including Annual Reports, Notices, Circulars,

etc. from the Company electronically.

the remote e-voting shall commence on 23.09.2023 at 10.00 A.M;

the remote e-voting shall end on 25.09.2023 at 5.00 PM.; the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-vote

during the AGM is 19.09.2023: any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after e-mailing of Notice by the Company and holding physical/demat shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. The same procedure may be followed by Members holding shares in Demat/Physical mode who have not registered/ updated their Email IDs with verification details such as folio no., DP ID/Client ID. PAN

(scanned copy), demat account statement; the remote e-voting shall end at 5:00 PM, on 25:09:2023 and thereafter shall be disabled by CDSL. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

the e-voting facility will be available during the AGM also for the Members who have not cast their vote through remote e-voting. Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again: only a person, whose name is recorded in the Register of member or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM; Mr. Vijay Jain, Proprietor of M/s Vijay Jain & Co., Company Secretaries (CP No. 18230) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner;

If a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password/PIN for casting vote is to be used. If a Member forgets password, the same is to be reset by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evotingindia.com. The AGM Notice and Annual Report will be available on the websites of (i) the Company at

www.surajindustries.org (ii) Stock Exchange at www.bseindia.com.

n case of any queries before or during the AGM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed

to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A

Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel

(East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll

For Suraj Industries Ltd. Snehlata Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

Authorised Officer, PUNJAB & SIND BANK

Date: Panchkula

Place: 31.08.2023

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of AGM using electronic voting system ("Remote e-Voting") provided by NSDL. Member's holding shares in dematerialized form, as on Friday, 15th September, 2023 ("Cut-off date") can cast their vote through remote e-voting of with www.evoting.nsdl.com. A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the Cut-off date

2. The Remote e-Voting period will commence on Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, 24th September, 2023 at 5.00 P.M. (IST). The Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting.

3. Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronic means and before the Cut-off date may obtain the USER ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@dkenterprises.co.in. However, if a person is already registered for remote e-voting then he/she may use the existing USER ID and Password and cast the vote.

4. Members attending the AGM through VC/OAVM but who have not casted their vote by Remote e Voting shall be eligible to cast their vote through e-Voting during the AGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the Chairman). Members who have voted through Remote e-Voting shall be eligible to attend the AGM through VC/OAVM, however they shall not be eligible to vote at the meeting. Further the Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. 5. The procedure of e-voting is provided in the Notice of the AGM as well

as in the E-mail sent to the members by NSDL In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to (Ms. Sarita Mote) at evoting@nsdl.co.in Further the shareholders are also requested to refer to the notice of the AGM for more details on process to be followed from their side, if any, in

**BOOK CLOSURE** NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of

> For D.K. Enterprises Global Limited RAKESH KUMAR

> > Chandigarh

जेएमजी कॉपोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 574, 2रा तल, मैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 ई-मेलः info@jmg-corp.in, वेबसाईटः www.jmg-corp.in फोन र्न.: 011-41834411/41834111, CIN: L31104DL1989PLC362504 वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली

34वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना तद्वारा सुचना दी जाती है कि सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित कॉपोरेंट कार्य मंत्राल एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 तथा 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, जिसने सुचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड (सामृहिक रूप से परिपत्रों के रूप में संदर्भित) मे भेजने की अनुमति दी है, के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना जेएमजी कॉपोर्रेशन लिमिटेड 'कंपनी') की 34वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल साधन ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को 12:00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकत कार्यालय 574, द्वितीय तल, मेन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-11001

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भा लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए 34वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उ सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों क रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 20 सितंबर, 2023 से 26 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। सदस्य यह भी नोट करें कि कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाएंग ताकि उसके सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित कर के लिए मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को 'कट-ऑफ तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 23 सितंबर, 2023 (सुबह 9:00 बजे) (भा.मा.स.) से शुरू होग और 25 सितंबर, 2022 (5:00 बजे) (भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त. कंपनी एजीएम के दौरान वोर डालने के लिए ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करेगी।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में दिए ग तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग उपलब्ध "Frequently Asked Questions (FAQ's) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें। सदस्य कंपनी को info@jmg-corp.in प

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में भी दी गर्य है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट नियत समय में कंपनी की वेबसाइट www.jmg-corp.in, स्टॉव एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com औ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पर भी उपलब्ध होगी उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपन्न और समय-समय पर जारी सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड निशा कुमार्र (कंपनी सचिव सदस्यता सं. : एसीएस 4421

ORIX

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 94, मरोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट,

अंधेरी—कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई—400059 फोनः 91 22 2859 5093/6707 0100, फैक्सः 91 22 2852 8549 ईमेलः info@orixindia.com, www. orixindia.com सीआईएनः U74900MH2006PLC163937

अधिनियम, 2002 के तहत अधोहस्ताक्षरी ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 13.06.2023 को मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता के रूप में संजय शर्मा, विजय कुमार शर्मा, नीलाक्षी और अशोक कुमार शर्मा से नोटिस मे शूल्क की उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भूगतान करने के लिए

1.उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त होने के बावजूद और भावी ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूरी नोटिस राशि चुकाने में विफल रहे है,एतद्दवारा उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर 29.08.2023 को सांकेतिक कब्जा कर लिया

2. उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा चेता वनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन करने पर रू. 67,05,062,85 / —(सङ्सद लाख पांच हजार ब एवं पट्टाभी पैसे मात्र) एवं मांग नोटिस से भुगतान / वसूली की तारीख तक अति। और अन्य शूल्क उसपर ब्याज, लागत आदि, ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

जिलाः फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित संपत्ति सं. 1281, प्लॉट क्षेत्रफल 125 वर्ग गज का वह समस्त टुकड़ा और अंश, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः 10 फीट चौड़ी गली , दक्षिणः अन्य संपत्ति,

मद-2: खेवट नं. 827 / 808, खतौनी नं. 1012, मु.नं. 55, किला नं. 9 / 17 / 2, जवाहर कॉलोनी, मौजाः सारण, तहसील और जिलाः फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित मकान नं. 1505, मापक्षेत्र 62 वर्ग गज, (कवर एरिया 550 वर्ग फुट) का वह समस्त टुकड़ा और अंश, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः पी. नं. 2513, पश्चिमः पी. नं. 2511, उत्तरः अन्य, संपत्ति, दक्षिणः 15 फीट बौडी सङ्क्र,

दिनांकः 29.08.2023 स्थानः हरियाणा

乘明 खाता चंखाः LN0000000013146 और LN000000018611 ओरिक्स लीचिंग एंड फाइचेंशियल सर्विसेच इंडिया

IndusInd Bank 🛞

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 30.08.2023

फाइनेशियल रास्ट्रक्वारंग एंड राकस्ट्रक्शन ग्रूप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) अधीन इंडसइंड बैंक को रेहन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री। एतदहारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी/बंधक/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के तहत जारी की गई मांग के अनुसार उल्लिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित अनुसार बैंक की बकाया राशि और ब्या की वसूली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में जैसी है जहां है, जैसी है, जो कुछ भी है, वहां जो कुछ मौजूद है और बिना संसाधन के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ लिया है और जबिक चुकाने में

बंधककर्ता डिमांड नोटिस के अनुसार संपत्ति का की तिथि करने की और गारंटर ईएमडी का नाम विवरण राशि व डिमांड नोटिस तिथि अंतिम तिथि का नाम हायशी प्लॉट ने. बी-76, कुमुंद विहार 31.12.2021 को 06.10.23 पूर्वा. 10 बजे 04.10.2023 13.50 विनोद से पूर्वा. 11 बजे तक भीलवाड़ा रकबा 299.99 वर्ग यार्ड 81,89,003.96/- रुपये के साथ लाख रु अप. ४:०० बजे तक केमिकल्स 01.01.2022 से आगे के ब्याज रेहायशी प्लॉट नं. बी-81, कुमुंद वि 04.10.2023 सोमानी. इंडस्ट्रीज अप. 4:00 बजे तक भीलवाड़ा रकबा 213.33 वर्ग यार्ड जमा उस पर लागत, शुल्क और लाख रु से अप. 1 बजे तक उमा देवी व्यय आदि। रिहायशी प्लॉट नं. बी-146, कुमुंद विहा 139.00 13.90 04.10.2023 सोमानी डिमांड नोटिस तिथि: 11.03.2022 भीलवाड़ा रकबा 385.66 वर्ग यार्ड लाख रु. लाख रु से अप. 2.30 बजे तक अप. ४:०० बजे तक

विफलता के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक बकाया की वसूली

का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री होगी वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी

अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण- श्री यतेन्द्र कुमार, मोबाइल नंबर १९९०७१९३७१, ई-मेल आईडी:- kumar.yatendra@indusind.com

नियम और शर्तैः 1. इच्छक बोलीदाता अपने इएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोटेलः https://www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से (युजर आईडी और पासव https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी निम्नलिखित खाते में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी 00053564604005, IFSC Code- INDB00000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले अपराह्न 4:00 बजे तक। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नर्ह किया जाएगा। 2. प्राधिकत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सचना के अनसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांविधिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाय वैधानिक देय राशि/ऋणभार/ कर बकाया, यदि कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का कड़ाई से निरीक्षण किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं- 0124 4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर– +91–7080804466, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवस (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित भूगतान में किसी भी चूक के मामले में, बिक्री स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और बोलीदाता द्वारा की गई पूरी जमा राशि और बयाना राशि बिना किसी नोटिस के जब्त कर ली जाएगी औ संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। चुककर्ता बोलीदाता के पास बैंक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई रिकॉर्स/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणे/गारंटर/रेहनकर्ता को ई–नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज तथा अनुषंगी खर्चे की अदायगी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलार्म बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, ब्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी।

तिथि: 31.08.2023 स्थानः भीलवाड़ा (राजस्थान) प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लि.

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

कार्यालय वसूली अधिकारी—।, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।।, दिल्ली

आर.सी. सं.: 269/2020

विक्रय उद्घोषणा सूचना इंडियन ओवरसीज बैंक विरुद्ध सॉफ्टॉक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय-भुग्तेय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित

आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के अंतर्गत विक्रय की उद्घोषणा **सीडी#1 : मैसर्स सॉफ्टॉक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड.** इसका पंजीकत कार्यालय एम—39 (आर्य समाज मंदिर के पास) ग्रेटर कैलाश पार्ट—111, नई दिल्ली—110048 में स्थित है। अन्य पता : 37 डीआईसी

बद्दी (हिमाचल प्रदेश), अन्य पता : प्रशासन कार्यालय, एफ–34 / 8, ओखला फेज–।।, नई दिल्ली–110020, अन्य पता : एसडीएफ–1–3, नोएडा, स्पेशल इकोनोमिक जोन, नोएड सीडी#2: श्री उमेश गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पता— कमर्शियल प्राइवेट नंबर 101 व 104 ओम भवन, जो संपत्ति सं. 3583 में स्थित है, जिसमें 1 कमरा है जो प्रथम तल पर फैज बाजार

नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली में स्थित है। एम–31, ग्रेटर कैलाश पार्ट–11, नई दिल्ली–110049 के निवासी सीडी#3: श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री उमेश गुप्ता, पता— कमर्शियल प्राइवेट नंबर 101 व 104 ओम भवन, जो संपत्ति सं. 3583 में स्थित है, जिसमें 1 कमरा है जो प्रथम तल पर फैज बाजार

नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली में स्थित है। एम-31, ग्रेटर कैलाश पार्ट-11, नई दिल्ली-110049 के निवासी। जबिक रु. 7,40,87,073 / – (रुपये सात करोड़ चालीस लाख सत्तासी हजार तिहत्तर मात्र) की एक राशि तथा साथ में वाद प्रस्तुत होने की तिथि से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों एवं

शुल्कों के साथ प्रमाणपत्र देनदारों से 12.00% प्रति वर्ष की दर पर भावी ब्याज एवं पेंडेंट–लाइट की वसूली के लिये पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।। द्वारा आहरित ओए नं 190/2014 दिनांकित 06-08-2020 के अंतर्गत निर्गत वसूली प्रमाण पत्र सं. 269/2020 निर्गत किया गया है (राशि जो है वह 18-01-2023 के अनुसार वसूलीयोग्य रु. 15,26,19,370/-

. और जबिक अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त वसूली प्रमाण पत्र से संतुष्ट होकर के नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। 3. एतदवारा सुचना दी जाती है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति को 20—10—2023 को मध्या. 11 बजे से दोप. 12 बजे के बीच, 12 बजे के बाद 5 मिनटों के विस्तारों के

साथ, यदि आवश्यक हुआ, ई—नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और बोलीदान वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ''आनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान'' के माध्यम से संपन्न होगा . बिक्री नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखितानुसार उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी और देनदारियां व दावे जो उक्त संपत्ति से संलग्न हैं, जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे वही हैं जिन्हें प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसुची में निर्दिष्ट किया गया है।

. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से को बेचकर प्राप्त हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि नीलामी रद्द होने से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री का संचालन करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि तथा ब्याज और लागत का अधोहस्ताक्षरी को भुगतान कर दिया गया है तो बिक्री भी रोक दी जाएगी।

:. बिक्री के संबंध में किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति का चाहे कोई भी कार्य कर्तव्य क्यों न निहित हो, वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई संपत्ति में कोई

भी हित प्राप्त नहीं करेगा अथवा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। 7. बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची तथा उसके तहत विरचित नियमावली में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी

7.1 संलग्न अनुसची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उदघोषणा में हुई या होनेवाली किसी भी त्रृटि, त्रृटिपूर्ण विवरण अथव चक के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।

7.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्तियां संख्या (।) गिरवी रखी गई संपत्ति 1 इकाई संख्या 101 संपत्ति संख्या 3583 पर स्थित जिसमें पहली मंजिल पर एक कमरा शामिल है, जिसमें 275 वर्ग फुट का सुपर निर्मित क्षेत्र है, जो फैज बाजार, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली में स्थित है; आरक्षित मूल्य : रु. 27,10,000 / – (रुपये सत्ताईस लाख दस हजार मात्र) से नीचे नहीं बेची जायेंगी और बयाना राशि जमा (ईएमडी) : रु. 2,71,000 / – (रुपये दो लाख इकहत्तर हजार) मा है और (।।) गिरवी रखी गई संपत्ति, यूनिट नं. 104 संपत्ति सं. 3583 पर स्थित जिसमें एक कमरा पहली मंजिल पर है जिसका 305 वर्ग फुट का सुपर निर्मित क्षेत्र है जो फैज बाजार, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली में स्थित है; वह आरक्षित मुल्य : रु. 25,18,000 / – (रुपये पच्चीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) से कम पर नहीं बेची जायेगी और जिसका बयाना राशि जमा (ईएमडी) : रु. 2,51,800 / – (रुपये दो लाख इक्यावन हजार आठ सौ मात्र) है, और

जो सममूल्य पर उल्लिखित संपत्ति के संबंध में है। (।) 7.3 इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने अधिकतम 18.10.2023 को सायं 5.00 बजे से पहले रिकवरी ऑफिसर—।, डीआरटी—।।, दिल्ली के कार्यालय में पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण इत्यादि सहित प्रलेखों के साथ अपनी बोलियां बचाव मुल्य से कम पर नहीं जमा की हैं, वे 20.10.2023 को मध्या. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जानेवाली ई—नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनटों के लिए बढ़ जाएगा।

7.4 बोली लगाने वालों को प्रत्येक संपत्ति के संबंध में रु. 1,00,000 / — (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करना होगा। 7.5 असफल बोली लगाने वाले को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर तुरंत वसूली अधिकारी ।, डीआरटी-।।, दिल्ली / सीएच, अर्थात् इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यालय से सीधे ईएमडी

7.6 सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को रिकवरी ऑफिसर—।, डीआरटी—।।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 269 / 2020 के पक्ष में, ई—नीलामी बंद होने के 24 घंटे के भीतर, नंबर बोली / बिक्री राशि

के 25 प्रतिशत के लिए डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर तैयार करना और जमा करना होगा और ईएमडी समायोजित करने के बाद इसे वसूली अधिकारी–।, डीआरटी–।।, दिल्ली के कार्यालय में इस प्रकार भेजना / जमा करना होगा ताकि यह ई-नीलामी बंद होने के 24 घंटे के भीतर वहां पहुंच जायं। ऐसा न होने पर ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।

7.7 सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को बिक्री का शेष 75 प्रतिशत रिकवरी ऑफिसर—।, डीआरटी—।।।, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 269/2020 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन या उससे पहले, ऐसे दिन को छोड़कर, या यदि 15वें दिन को छोड़कर रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर वसूली अधिकारी–1, डीआरटी–11, दिल्ली के समक्ष, पाउंडेज शुल्क के साथ 1,000 रुपये तक 2 प्रतिशत की दर से और 1000/– रुपये से अधिक की ऐसी सकल राशि से अधिक होने पर 1 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।, दिल्ली के पक्ष में भुगतान करें। ( डाक के माध्यम से शेष राशि 75 प्रतिशत जमा करने के मामले में उपरोक्तानुसार वसुली अधिकारी तक

7.8 सफल/उच्चतम बोली लगाने वाला इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आय कर अधिनियम की धारा 194—आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को शेष बिक्री आय का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने

7.9 निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। खर्च चुकाने या बिक्री के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे. सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

8. संपत्ति को ''जैसी है जहां है और जैसी है जो है'' आधार पर बेचा जा रहा है।

9. सीएच बैंक / सीएचएफआई को यहां इसमें दिए गए विवरणों की सत्यता को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। 10. अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भी या सभी बोलियों को अनुचित पाए जाने पर स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

संपत्ति की अनुसूची							
बेची जानेवाली संपत्ति का विवरण	हिस्से पर मूल्यांकित राजस्व	किसी भी ऋणमार के विवरण जिस हेतु संपत्ति पर देनदारी है	दावें, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है तथा कोई भी अन्य ज्ञात विवरण जो इसकी प्रकृति एवं मूल्य का है				
बंधककृत संपत्ति यूनिट नं. 101 जो कि संपत्ति सं. 3583 पर स्थित है जिसमें कि एक कमरा प्रथम तल पर है जिसका अधि निर्मित क्षेत्रफल 275 वर्ग फुट है जो फैज बाजार नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली में स्थित है।		अज्ञात	अज्ञात				
बंधककृत संपत्ति यूनिट नं. 104 जो कि संपत्ति सं. 3583 पर स्थित है जिसमें कि एक कमरा प्रथम तल पर है जिसका अधि निर्मित क्षेत्रफल 305 वर्ग फुट है जो फैज बाजार नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली में स्थित है।							

आज दिनांक 16-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड सं. २ फेज—३, संसारपुर टेरेस, जनपद कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश—173212 निगमित कार्यालय : एफ-32/3, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 सीआईएन : एल26943एचपी1992पीएलसी016791, दूरमाष सं. : 01970-256414

स्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ईमेल आईडी- secretarial@surajindustries.org; वेबसाइट- www.surajindustries.org

(सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की इकतीसवीं (31वीं) वार्षिक सामान्य

बैठक (एजीएम) का आयोजन मंगलवार 26 सितंबर 2023 को अप. 3.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य–श्रव्य संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से किया जाएगा, जो कि किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों व . व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना एजीएम सूचना दिनांकित 28 अगस्त 2023 में निर्धारितानुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिये किया जायेगा, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत क्रमशः 14/2020, 17/2020, 20/2020 02 / 2021. 02 / 2022 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021 एवं 05 म 2022 ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतार्ये) विनियमावली २०१५, समय—समय पर संशोधितानुसार, तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वार निर्गत परिपत्र संः सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020 एर परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 (''सेर्ब परिपत्र'') के साथ पठित सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 (''सेबी परिपत्र'') के लागूयोग्य प्रावधानों के अनुपालन में किया जायेगा।

उपर्युक्त एमसीए और सेबी सर्कुलर के अनुसार, 31वीं एजीएम की सूचना में अन्य बातों के साथ-सा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एँजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और निर्देशों के साथ—साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) के लिए प्रक्रिया और निर्देशों की व्याख्या की गई है जिसमें वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ लेन–देन की जाने वाली व्यावसायिक वस्तुएं और व्याख्यात्मक विवरण समाविष्ट हैं, जो केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को वर्ष 2023 के लिए एमसीए और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों की इलेक्टॉनिक मेलिंग 04 सितंबर 2023 को या इससे पहले पूरी होने की उम्मीद है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 2 समय—समय पर संशोधितानुसार, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 (सुचीकरण विनियमावली) के विनियमन ४४ के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा एजीएम व दौरान रिमोट ई—वोटिंग सुविधा और ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करके संतृष्ट है, जिससे कि वे एजीएम की सूचन में निर्धारितानुसार सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने–अपने वोट डालने में सक्षम हो सकें। सदस्यगण, जिनके पास भौतिक/इलेक्टॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना के साथ वार्षिक रिपो 2023 ईमेल द्वारा प्राप्त करने के लिए, सदस्य(सदस्यों) द्वारा विधिवत ढंग से हस्ताक्षरित एक पत्र; जिसमें कि उनक अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी में रखे गए शेयरों की संख्या, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति और निम्नलिखित दस्तावेजों– आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी प्रलेख में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति, कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते प्रमाण के समर्थन में प्रलेख, सम्मिलित हो; की स्कैन की गई प्रति secretarial@surajindustries.org अथव beetalrta@gmail.com पर भेजकर अपने ई-मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें। डीमैट फॉर्म में शेयर

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ईमेल पते का अद्यतनीकरण / पंजीकरण केवल 31वीं एजीएम की सूचना और 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य से किया जाएगा और उसके बाद 31वीं एजीएम के बाद तुरंत आरटीए के रिकॉर्ड से अक्षम कर दिया जाएगा। इसलिए आपको कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित भविष्य के सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड वास्तविक पंजीकरण के लिए उपरोक्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ ईमेल आईडी अपडेशन अनुरोध आरटीए

रखने वाले सदस्यगण, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पते अद्यतन कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

क. रिमोट ई—वोटिंग 23.09.2023 को प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होगी: ख. रिमोट ई-वोटिंग 25.09.2023 को साय 5.00 बजे समाप्त होगी;

ा. एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोट के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने व

. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा नोटिस ई–मेल करने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी क सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक/डीमैट शेयर रखता है, व helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त क सकता है या 022-23058542 / 43 पर कॉल कर सकता है। डीमैट / भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों जिन्होंने फोलियो नंबर, डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी, पैन (स्कैन की गई कॉपी), डीमैट खाता विवरण जैसे सत्यापन विवरण के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं की है, उनके द्वारा इसी प्रक्रिया क

रिमोट ई–वोटिंग का समापन 25.09.2023 को साय 5.00 बजे होगा तथा उसके बाद सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने

त्र. ई—वोटिंग सुविधा, एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाले हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने

छ. केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है. एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सविधा

ा. मैसर्स विजय जैन एंड कंपनी के मालिक श्री विजय जैन, कंपनी सचिव (सीपी नंबर 18230) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुत्त

झ. यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने व लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य पासवर्ड भूल जाता है, तो उसे www.evotingindia.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करके रीसेट किया जाना चाहिए।

एजीएम सचना और वार्षिक रिपोर्ट (i) कंपनी की वेबसाइट www.suraiindustries.org (ii) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

एजीएम से पहले या उसके दौरान किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध सहायता अनुभाग के तहत सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं अथव टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें, श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को संबोधित की जा सकती हैं helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें कृते सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दिनांक : 30-08-2023

बीटेल टेलीटेक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, प्लॉट नं. 16, उद्योग विहार फेज IV,

स्नेहलता रार्मा

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

गुड़गाँव 122015, हरियाणा, भारत कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U32204HR1999PLC042204

फोन नं.: +91-124-4823500, फैक्स नं.: +91-124-4146130, वेबसाईट : www.beetel.in, ई-मेल : legal.secretarial@beetel.in 24वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग के संबंध में सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बीटेल टेलीटेक लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 24वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कॉर्पीरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 (दिनांक 8 अप्रैल, 2020), 17 / 2020 (दिनांक 13 अप्रैल, 2020), 20 / 2020 (दिनांक 5 मई, 2020), 02 / 2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021), 19 / 2021 (दिनांक 8 दिसम्बर, 2021), 21 / 2021 (दिनांक 14 दिसम्बर, 2021), 02 / 2022 (दिनांक 05 मई, 2022) और 10 / 2022 (दिनांक 28 दिसम्बर, 2022) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनेयम") तथा उसके तहत निर्मित प्रावधानों के अनुपालन में किसी सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की

माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को लेन—देन करने के लिए शूक्रवार, 22 सितबंर, 2023 को दोपहर 3:00 बजे आयोजित की जायेगी। एजीएम की सूचना और कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022–2023 (31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी शुक्रवार,

भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्यल साधनों ("ओएवीएम") वे

25 अगस्त, 2023 को कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा डिपॉजिटरी भागीदार (रों) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 30 अगस्त, 2023 को पूर्ण कर लिया गया है कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के पास एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्र(त्रों) के माध्यम से समाप्त कर दी गयी है। एजीएम की सूचना एव वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023, कम्पनी की वेबसाइट www.beetel.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

जो सदस्य भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं अथवा उनके ई—मेल आईडी कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एव शेयर अन्तरण ऐजेन्ट के साथ पंजीकृत नहीं है वे सदस्य अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाकर रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं। सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना नाम एवं पता,पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन्ड प्रति किसी दस्तावेत (जैसे आधार कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, मतदान कार्ड, पासपोटी की स्कैन्ड प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन्ड प्रति यथाशीघ्र ई-मेल द्वारा admin@mcsregistrars.com तथा / अथवा legal.secretarial@beetel.in पर भेजकर अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत कराने का आवेदन करें। अभौतिक (डीमैट) प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपने ई—मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करवा सकते हैं। एजीएम की सूचना में सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रकिया शामिल है। ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम २०१३ की धारा १०८ तथा कम्पनी (प्रवन्धन एवं प्रशासन) नियम २०१४ एवं एमसीए परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") से ई—वोटिंग सेवाएँ ली हैं और वोटिंग प्रकिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा के लिए कम्पनी ने श्री अभिषेक लाम्वा (सीपी सं. 13754). साझेदार अथवा उनकी अनपस्थिति में श्री हरीश चावला (सीपी सं. 15492), मैसर्स सी एल एन्ड एसोसिएटस, कम्पनी सेक्रेटरी के साझेदार को संवीक्षक के रूप में नियुक्त

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है:

1. एजीएम की सचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जायेगा।

2. रिमोट ई—वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई—वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) से गुरूवार, 21 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.) तक रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति

3. शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 (कट—ऑफ तिथि) तक भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप (डिमैट) र शेयर धारण करने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। जो सदस्य कट-ऑफ तिथि तक शेयर / प्रतिभृति धारण नही करता है उसे इस सचना को केवल सचना के रूप में लेना चाहिए।

4. जो व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्त् यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए वह वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। . सदस्य ध्यान दें कि :

(अ) गुरूवार, 21 सितंबर, 2023 को 5.00 बजे अप. के पश्चात रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल

एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा. इसके पश्चात सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनमति नहीं दी जायेगी। (ब) एमसीएँ परिपत्रों के सन्दर्भ में जो सदस्य एजीएम में उपस्थित होंगे केवल वे ही एनएसडीएल

प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में इलेक्ट्रानिक वोटिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे (वीसी वे माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की विस्तत प्रक्रिया एजीएम सचना की टिप्पणियों मे (स) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एजीएम मे

भाग ले सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। (द) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 तक सदस्यों के

रजिस्टर या डिपॉटिरी के लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान मतदान से सम्बन्धित प्रश्नों की पूछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध शेयरधारकों हेत् फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वोश्चन्स (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों हेतु यूजर मैनुअल देखें अथवा evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजे अथवा टोल फ्री नं. 022— 4886 7000 अथवा 022 — 2499 7000 पर कॉल करें अथवा सचिवीय विभाग से +91-1244823500, ई-मेल legal.secretarial@beatel.in पर संपर्क करें अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर सम्पर्क करें।

सदस्य विशेष रूप से एजीएम में शमिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें। निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

> बीटेल टेलीटेक लिमिटेड हस्ता / -संजीव छाबड़ा

प्रबंध निदेशक (डीआईएन. 08174113)

तिथि: 31.08.2023 स्थान : गुरूग्राम

अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोसं में प्रत्याभृत आस्तियों अधवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की विक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक

अथवा विलीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतू जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 19/09/2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की

सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरियति में किया जाएगा।

सम्मन जारी करने हेतू अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Chandigarh www.readwhere.com

(उत्तम नेगी) वसूली अधिकारी—।, डीआरटी—।।, दिल्ली

# अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे रोमक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त जय प्रकाश, पुत्र करतार सिंह, पताः जी—11बी सेक्टर 04, विजय विहार, रोहिणी, नई दिल्ली, **यहां भी**ः मकान नं. 2, फेज़—2, हरि एन्क्लेव अमर विहार, रोहिणी, नई दिल्ली, ने FIR No. 98/2017 dated 17.03.2017 U/s 392/394/411/34 IPC थाना मोती नगर, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त जय प्रकाश मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त जय प्रकाश फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR No. 98/2017 dated 17.03.2017 U/s 392/394/411/34 IPC थाना मोती नगर, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त जय प्रकाश से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे

समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.11.2023 को या इससे पूर्व हाजिर

सुश्री शग्न, महानगर दण्डाधिकारी -04, कमरा नं. 268, (पश्चिम) तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

आदेशानुसार

DP/9735/WD/2023

शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. पंजीकृत कार्यालयः 501, सैल्कॉम ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025 CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम 8(1) **जैसा कि**, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक अर्थात् शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.6.2023 ऋण खाता सं. 101946510021 तथा 101941000766 के लिये जारी कर 1 शकुन्ता चक्रवर्ती, पुत्र विशनाथ चक्रवर्ती (ऋणधारक/मार्टगैजर) निवासीः डी-62/बी, सेक्टर 15 नोएडा, प्लॉट नं. 97-98, शबेरी ग्राम बालाजी एन्क्लेव गौतम बुध नगर, ग्रेटर नोएडा 201301, 2 सोमा चक्रवर्ती (सह-ऋणधारक) निवासीः डी-62/बी, सेक्टर 15, नोएडा, प्लॉट नं. 97-98, शबेरी ग्राम बालाजी एन्क्लेव गौतम बुध नगर, ग्रेटर नोएडा 201301, 3. श्री संतोष पाण्डेय, पुत्र कुबेर पाण्डेय (गारंटर) निवासीः एच-89, सेक्टर 12, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 6,02,000/- (रु. छः लाख दो हजार मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/मॉर्टगैजर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 24 अगस्त, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू. 6.02.000/- (रू. छः लाख दो हजार मात्र) तथा ब्याज की राशि के लिये शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. के चाज ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज:** शकुन्ता चक्रवर्ती के नाम में उप रजिस्ट्रार, दादरी के कार्यालय

में बही नं. 1, जिल्द नं. 7977, पेज नं. 1 से 22, क्रमांक 4533 तिथि 2.3.2015 में पंजीकृत प्लॉट

नं. 97-98, ग्राम शवेरी बालाजी एन्क्लेव, तहसील गौतम बुध नगर, जिला गौतम बुध नगर में स्थित आवासीय सम्पत्ति एरिया माप 78.96 वर्ग यार्ड्स, तीसरा तल, फ्लैट नं. टीएफ-2 अचल परिसम्पत्ति/सम्पत्ति की चौहदीः

30 फीट चौड़ा रास्त तिथि: 24.8.2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः इन्दिरापुरम शिवालिक स्मॉल फाइनांस बैंक लि. एमको इंडिया लिमिटेड

### CIN: L74899DL1987PLC029035 पंजीकृत कार्यालय : 10796, शॉप नं...-7 जीएफ, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली...-110055 कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301,

फोन नं. : 0120-4601500 ई--मेल : amco.india@ymail.com, येवसाइट : www.amcoindialimited.com छतीसवीं (38वीं) वार्षिक आम बैठक के लिए सार्वजनिक सचना

यह सुचित क<mark>्रिया</mark> जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों

कें साथ प<mark>्रित क</mark>ॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 2020, दिनांक 5 मई, 2020 एवं दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपन्न) और भारतीय ्या विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 ("सेबी के अनुपालन में एमको इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") की 36वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो मध्यमी ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी रनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक, एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को दोप, 01:00 बजे (आईएसटी) आयोजित की

वेतीय वर्ष 2022–23 के लिए कम्पनी की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट की ई कॉपी, एजीएम की सचना, वित्तीय विरुण तथा अन्य दस्तावेज के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evolingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एजीएम की सुबना स्टॉक एक्सबेंज बीएससी लिमिटेड, जड़ां कम्पनी की प्रतिभृतियां सुचीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी

सदस्थगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जिसका विवरण बैठक की

सञ्चना में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, कृपवा ध्यान दे कि कम्पनी की 36वीं एजीएम में

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने एवं भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम ते भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के अंतर्गत कीरम के प्रयोजन रजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 उन सदस्यों को इलेक्ट्रोनिकली भेजी जाएगी जिनके —मेल पत्ते कम्पनी / रजिस्टार एंड टांसफर एजेंट ("रजिस्टार") / डिपोंजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास

ांजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी पत्राचार प्राप्त करने के लिए अपने ई—मेल पते को पंजीकृत कराने हेत्

भौतिक धारिता । अपना अनुरोध पत्र कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को ई मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करने के लिए भेजें: बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062.

फोन : 011 29961281-283, 26051061, 26051064 ई-मेल : investor@beetalfinancial.com

बिमेंट धारिता | कृपया अपने बीपी से सम्पर्क करें और आपके ढीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं कम्पनी एजीएम की सुबना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को सेन्ट्रल

वेपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीबीएसएल') द्वारा चपलबा कराई गई रिमोट ई–वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, कम्पनी 38वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा भी एपलब्ध कराएगी। रिमोट ई-वोटिंग और 36वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की संबना में दी जाएगी। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या जिन्होंने अपना ई—मेल पता हम्यनी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, वे रिमोट ईं−वोटिंग / एजीएम के दौरान ईं−वोटिंग के माध्यम से अपन वोट देने के लिए एजीएम की सचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

कृते एमको इंडिया लिमिटेड स्रेन्दर कुमार गुप्त स्थान : नोएडा, यू.पी. प्रबंध निदेशक दिनांक : 30.08.2023 डीआईएन : 00026609

> प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसली न्यायाधिकरण, चंडीगढ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्य तल पर भी अतिरिक्त स्थान आयंटित) वाद सं. ओए/4618/2017 अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रियां) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

Exh. No. 19198 पंजाब नैशनल बैंक एन एन इंजीनियर्स एवं फैब्रिकेटर एवं अन्य

नं. 22, डी ब्लॉक डब्आ कॉलोनी फरीदाबाद इसके प्रतिवादी नं. 2 के माध्यम से। (2) श्री जिलोक नाथ शर्मा पुत्र देव दयाल शर्मा, प्रतिवादी नं. 1 के प्रोपराईटर, निवासी मकान नं. 1531, फिरोज गांधी नगर, फरीदाबाद एनआईटी हरियाणा, **और**: श्री त्रिलोक नाथ शर्मा पुत्र देव दयाल शर्मा प्रतिवादी नं. 1 के प्रोपराईटर, के डब्ल्यु - सृष्टि जी-304, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(1) ईएन ईएन इंजीनियर्स और फैब्रिकेटर्स एवं अन्य, मैसर्स ईएन इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स, एमसीएफ

(3) श्रीमती लिलत विश्रोति शर्मा पत्नी त्रिलिक नाथ शर्मा, निवासी मकान नं. 1531, फिरोज गांधी नगर, फरीदाबाद एनआईटी हरियाणा, <u>औरः</u> श्रीमती ललित किशोरी शर्मा पत्नी त्रिलोक नाथ शर्मा, केडब्ल्यू सुष्टि जी-304, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

जबकि, ओए/4618/2017 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 11.07.2023 को प्रस्तुत

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 52,16,532.83 के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है।(दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तृत करें; (iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित संजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के

क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिकी, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 13/07/2023 को दिया गया।